



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार

The Patent Office, Government Of India
Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74)

(Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं./ Patent No.

543506

आवेदन सं./ Application No.

202241008924

फाइल करने की तारीख / Date of Filing

21/02/2022

पेटेंटी / Patentee

BHARATHIAR UNIVERSITY

आविष्कारकों का नाम / Name of Inventor(s)

1. Dr. N. PONPANDIAN 2. Dr. A. REBEKAH 3. R. MURUGAN

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित BIFUNCTIONAL COST-EFFECTIVE ELECTROCATALYST FOR CATALYZING HYDROGEN AND OXYGEN EVOLUTION REACTION नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख फरवरी 2022 के इक्कीसवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled BIFUNCTIONAL COST-EFFECTIVE ELECTROCATALYST FOR CATALYZING HYDROGEN AND OXYGEN EVOLUTION REACTION as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 21st day of February 2022 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



इकांत की संज्ञित

अनुदान की तारीख

27/06/2024

Date of Grant :

Controller of Patents

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, फरवरी 2024 के इक्कीसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।
Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 21st day of February 2024 and on the same day in every year thereafter.